

KG Petrochem Limited

Corporate Office: F-394 (G), Road No. 9F2, V.K.I.Area, JAIPUR - 13 INDIA Phone: (O) 0141 - 2331231, 4106800 • Fax: 91-141-2332845 E-mail: manish@bhavik.biz • Website: www.kgpetro.in CIN: L24117RJ1980PLC001999

February 14, 2024

To BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai- 400001 MH

Scrip Code: 531609

Subject: Intimation of Newspaper advertisement of Un-Audited Standalone Financial Results for

the Quarter and Nine month ended December 31, 2023.

Reference: Regulation 47 and other applicable provisions of Securities Exchange Board of India

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Respected Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 47 and other applicable provisions of Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith a copy of the newspaper advertisement of Un-Audited Standalone Financial Results for the Quarter and Nine month ended December 31, 2023 published in the English (Financial Express) and Regional (Business Remedies) newspaper on February 14, 2024.

This is for your information and record.

Thanking you
Yours Truly,
For KG Petrochem Ltd

Anand Singh M.NO. A69726 Company Secretary & Compliance Officer

Encl: Copy Of Newspaper

46

FINANCIAL EXPRESS

CORRIGENDUM

PRISM MEDICO AND PHARMACY LIMITED Registered office: Suketi Road, Kala Amb, Sirmaur, Himachal Pradesh-173030

CIN: L24100HP2002PLC009299; Website: www.prismmedico.in Email Id: investorgrievancewmcl@gmail.com EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS (PROVISIONAL) FOR THE QUARTER ENDED 31.12.2023 In Lakhs **Particulars** Quarter ended Nine Months ended Year ended Year ended (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) (Audited) No. Reviewed Reviewed Reviewed Reviewed Reviewed 31/12/2023 30/09/2023 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2022 31/03/2023 31/03/2022 Total income from operations (Net) 274.76 4.33 0.00 127.23 844.38 0.00 280.71 Net Profit / (Loss) for the period (before 18.97 -5.43-2.704.64 -12.62-10.22-49.90Tax, Exceptional and/or Extraordinary items 18.97 -2.704.64 -10.22Net Profit / (Loss) for the period before tax -5.43-12.62-49.90 (after Exceptional and/or Extraordinary items Net Profit / (Loss) for the period after tax 18.97 -5.43-2.744.64 -12.70-7.63-37.00after Exceptional and/or Extraordinary items) 18.97 -5.434.64 -12.70-7.63-2.74-37.00 Total Comprehensive Income for the period Comprising Profit / (Loss) for the period after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) Equity Share Capital 606.34 606.34 606.34 606.34 606.34 606.34 606.34 Reserves (excluding Revaluation Reserve)as shown 914.45 895.48 609.75 914.45 609.75 909.81 649.13 in the Audited Balance Sheet of the previous year 0.0031 -0.0009-0.00050.0008 -0.0021-0.0013-0.0061.Earning per share (before extraordinary items) (Face Value of Rs. 10/- each) Basic & Diluted -0.0013Earning per share (after extraordinary items) 0.0031 -0.0009-0.00050.0008 -0.0021-0.0061(Face Value of Rs. 10/- each) Basic & Diluted

Notes:-(1) The above results are as per Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 as amended and have been taken on record by Board of Directors at its meeting held on 13.02.2024 after being reviewed by the Audit Committee. (2) This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind. AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable. (3) The company is having single segment in accordance with IND AS 108 "operating segments", and therefore segment reporting is not applicable to the company.

Place: Kala Amb.Himachal Paradesh Dat: 13/02/2024

Sd/-**Davender Singh** Director (DIN: 09447213)

For and on behalf of Board

MPDL LIMITED

Corporate Office: UNIT NO. 12. GF, MAGNUM TOWER-1 SECTOR - 58, GURUGRAM - 122011 Regd. Office: 11/7, Mathura Road, Sector 37, Faridabad - 121003 (Haryana) Tel. No.0124-422234-35; E-mail: isc_mpdl@mpdl.co.in website: www.mpdl.co.in; CIN: L70102HR2002PLC097001

П				Stand	dalone					Cons	olidated		
SL	Particulars	Quarter ended Nine months end			ths ended	Year Ended	C	uarter ende	d	Nine months ended		Year Ended	
۷o.	raidculais	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1 2	Total income from operations (net) Net Profit / (Loss) for the period (before	222.43	136.60	363.11	512.69	815.78	434.78	165.98	321.93	782.10	821.56	1,556.30	1,419.26
3	Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax	(108.11)	2,561.33	(148.19)	2,417.04	(320.68)	251.94	(130.97)	2,559.20	(146.22)	2,200.10	(523.98)	(135.09)
4	(after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax after		2,561.33	(148.19)	2,417.04	(320.68)	251.94	(130.97)	2,559,20	(146.22)	2,200.10	(523.98)	(239.99)
5	Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive		2,440.43	(148.19)	2,324.14	(320.68)	349.46	(102.97)	2,438.30	(146.22)	2,107.20	(523.98)	(384.64)
5	Income (after tax)] Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of	(80.11)	2,440.43	(148.19)	2,324.14	(320.68)	348.95	(102.97)	2,440.51	(146.22)	2,109.40	(526.74)	(517.89)
7	the previous year Equity share capital (Face Value of				59	**	4,835.39		90	*	100	93	8,617.19
	Rs.10/- per each) Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -	741.25	741.25	741.25	741.25	741.25	741.25	741.25	741.25	741.25	741.25	741.25	741.25
	(a) Basic (b) Diluted	(1.08) (1.08)	32.92 32.92	(2.00)	31.35 31.35	(4.33) (4.33)	4.71 4.71	(1.39)	32.62 32.62	(1.97) (1.97)	28.43 28.43	(7.07) (7.07)	(5.18) (5.18)

- 1 The above financial statements have been reviewed by the Audit Committee in its meeting held on 13/02/2024, and approved by the Board of Directors in its meeting held on 13/02/2024. The results for the quarter ended 31.12.2023 have been subject to a Limited Review by the auditors 2 The figures for the guarter ended 31st December 2023 and 31st December 2022 have been derived by deducting the year to date unaudited figures for the period ended 30th
- September 2023 and 30th September 2022 from the unaudited figures for the period ended 31st December 2023 and 31st December 2022 respectively.
- 3 The figures for the previous period in consolidated financial results are not comparable because Cambridge Construction (Delhi) Pvt Ltd ceased to be Subsidiary company w.e.f. September 26, 2023. Consequently Cambridge Construction (Delhi) Pvt Ltd has became Associate Company (holding 48.98% of equity share capital) of MPDL Ltd.
- 4 Other income includes Rs 2581.20 lacs being Gain on sale of investment during the period. 5 Previous period/year's figures have been regrouped/reclassified, wherever necessary, in order to make them comparable.
- 6 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Results filed with the Stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
- Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on Stock Exchanges website (www.bseindia.com) and Company's website www.mpdl.co.in.

Place: Gurugram Date: 13.02.2024

RAJESH PALIWAL DIRECTOR

SALE NOTICE

GRO

U GRO CAPITAL LIMITED

FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES 4th Floor, Tower 3, Equinox Business Park, LBS Road, Kurla, Mumbai 400070

E-Auction Sale Notice for Sale of Movable Assets is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described movable property hypothecated/pledged/charged to U GRO Capital Limited, the physical possession of which has been taken by the authorised officer of U GRO Capital Limited under

LAN	Borrower Name	Outstanding Amount	Reserve Price	Earnest Money	Hypothecated Asset details
HCFJAIMLN00001019264	GALINCOATING INDIA PRIVATE LIMITED	as on 10.02.2024 6,821,150	2,500,000	Deposit 250,000	MAKE: GOOWILL ENGEERING MODEL: Powder Coating Machine Set with 1) Powder Coating Gas Oven- 1 2) Powder Coating Booth- 2 3) Booth Encloser-1 4) Powder Coating Machine (Mannual)-2 5) Reciprocator- 2 6) Auto Gun-6 7) Air Compressor- 1 8) Air Pipe Fitting- 1 9) Coneyor- 1 10) Drive- 1 11) Take Up-2 12) Electrical Panel-1 13) Electrical Wiring-1 14) P.T. Line-1 15) Platform- 1 16) Painting of Plant-1 17) Erection & Commission
HCFDELMLN00001029893	RAMYA POLYMERS	1,790,598	700,000	70,000	Make - FLUID CONTROL INDUSTRIES Model - Hydraulic Pet bailing press Manual operated with powe pack unit. (Without oil) Motor 10 H.P.
HCFDELMLN00001041312	M/S JCS LED	2,971,486	2,400,000	240,000	MAKE: THE PLASTIC POINT, MODEL: MICROPROCESSOR BASED CNC CONTROLLED FULLY AUTOMATIC NUMERIC CONTROLLED PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE
HCFDELMLN00001045761	M/S JCS LED	3,119,707	2,300,000	230,000	MAKE: NEELGIRI MACHINERY GLOBAL PVT. LTD. MODEL: NEELGIRI NECTOR, INJECTION MOULDING MACHINE (NECTOR - 150 TON SERVO WITH ACCESSORIES)
HCFDELMLN00001023560	Ishanvi Enterprises	2,290,648	1,300,000	130,000	MAKE: MONOTECH SYSTEM LIMITED, MODEL: RICOH PRO C-5300S PRINTER (SERIAL NUMBER 3852C350004), LCIT RT5140, OUTPUT TRAY M42, PRO PRINT C5300 BLACK CARTRIDGE, PRO PRINT C5300 YELLOW CARTRIDGE, PRO PRINT C5300
HCFHYDMLN00001032634	MARVEL ENTERPRISES	3,570,818	2,300,000	230,000	MAKE – HARIRAM ENGINEERING, MODEL – HRP 134, B 3PLY MASK MACHINE INNER LOOP
560001MLN0032240	DRITI ENTERPRISES	5,880,986	4,600,000	460,000	MAKE: SANCHAL IMAGING SOLUTIONS, MODEL: XEROX VERSANT 3100 PRODUCTION PRINTER WITH DUAL OHCF & EFI PRINT SERVER & OCT 2400 X 2400 DPI
HCFHYDMLN00001023771	SRI SAI HOSPITAL	10,547,914	7,950,000	795,000	MAKE – ASHVINI MEDICAL ENTERPRISES, MODEL – GE VERSA MED I VENT 201 ICU MEDICAL VENTILATOR – 3 QTY, DRAEGER SAVINA 300 SELECT VENTILATOR – 2 QTY, CO2 FRACTION MACHINE- 1 QTY
HCFDELMLN00001020485	AARUHI ENTERPRISES	9,071,252	7,800,000	780,000	Make: MONOTECH SYSTEM LIMITED, Model: RICOH PRO C- 9200, ENTRANCE UNIT PRINTER WITH RICOH PRO C-9200, ENTRANCE EXIT UNIT, VACUUM FEEDLCIT RT 5120, MULTI BYPASS ATTACHMENT KIT TYPE S9, MULTI BYPASS BANNER SHEET TRAY TYPE S9 WITH STANDARD ACCESSORIES
HCFDELMLN00001031850	RIGEL INTERNATIONAL	3,885,085	3,900,000	390,000	MAKE - LOTUS MECHANICAL PVT LTD, MODEL - 7 COLOUR ROTO GRACURE PRINTING MACHINE WITH STANDARD ACCESSORIES
HCFDELMLN00001028864	MAHAVIR PLASTIC WORK	3,607,988	3,400,000	340,000	MAKE: Emactra Machine Industries, MODEL: Plastic Injection Molding Machine SM-130 Tons Pet Preform Energy Saving Servo Motor With B Type Screw Barrel with Standard Accessories (QUANTITY 2 Nos.)
HCFAHMMLN00001000329	ICONIC INDUSTRY	1,832,832	2,200,000	220,000	MAKE: PHILIPS MACHINE TOOLS INDIA PVT LTD, MODEL: HAAS USA MAKE VF-2YT-R CNC VERTICAL MACHINING CENTER
HCFHYDMLN00001018227	SRI DURGA ENGINEERING WORKS	1,443,970	1,750,000	175,000	MAKE – SPARC TECHNOLOGIES, MODELCNC 3514 SPARC BRAND CNC PLASMA CUM GAS CUTTING WITH EFFECTIVE CUTTING SIZE 3.5 METER X 14 MTS AND HYPERTRM PMX125(S/L.No.059530) AMPS EFFECTIVE CUTTING MACHINE
HCFAHMMLN00001024209	BULL INDUSTRIES	1,284,391	1,700,000	170,000	MAKE: MAK MACHINERY, MODEL: 1. SINGAL HEAD SEALING MACHINE, 2. HYDRAULIC BALE PRESS, 3. SIDE SEALING MACHINE, 4. PATTI MACHINE
		202000000000000000000000000000000000000		707 - 15 to control	

The Earnest Money Deposit to be deposited on or before 17-02-2024.

POWER SOLUTIONS

PRIVATE LIMITED

HCFJAIMLN00001028879 FUTURE GREEN

HCFDELMLN00001046793 I.M PRINT HUB

Date: 14-02-2024. Place: Mumbai

financialem epan.in

HCFAHMMLN00001001368 PARTH PAILS INDIA

For detailed terms and conditions of the sale with specification of Hypothecated Asset(s), please refer to the link provided in U GRO Capital Limited/Secured Creditor's website. i.e. www.ugrocapital.com or contact the undersigned at authorised.officer@ugrocapital.com

3,500,000

2,600,000

4,200,000

350,000

260,000

420,000

3,510,948

2,952,293

5,218,688

Sd/-, Ramlal Gupta (Authorised Officer) For UGRO Capital Limited

MAKE: PRAVYA EQUIPEMENT'S, MODEL: LASER SOURCE -

AUTOMATIC MICRO PROCESSOR CONTROLLED PLASTIC SERVO INJECTION MOULDING MACHINE WITH 70 MM SCREW BARREL

MAKE: SUSHIL MACHINERY, MODEL: SPM 300 FULLY

Make: MONOTECH SYSTEM LIMITED, Model: RICHO PRO

C7200X PRINTER (SR. NO. 982FAC0315) WITH STANDARD

MAX-2000W MODEL NO - 3015E

ACCESSORIES

21-22-03 MACHINE NO. SPM 300 SERIES

Novelty Road, Khurja- 203131, Distt.- Bulandshahr E-AUCTION NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES The sale notice, for sale of immovable properties on 10.02.2024 in Financial Express (Edition English) under Sarfaesi act. Sl. No. 1. Branch: Novelty Road, Khurja, Borrower: Joyti W/o Shri Pushpendra Bhardwai should be read as Date of E-Auction Date 29.02.2024 instead

of 27.02.2024 & Should be read as Property

Bank of Baroda

Inspection date: 28.02.2024 Instead of 26.02.2024. The other terms and conditions will remain the same. Date: 13.02.2024 Authorized Officer Place: Bulandshahar Bank of Baroda

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-II, CHANDIGARH S.C.O. No.33-34-35, 1st Floor, Sector 17-A, Chandigarh

TRC No.1078/2019 Federal Bank Ltd. . Certificate Holder Versus

M/s. Maitri Met Cap Industries Certificate Debtor Demand Notice under Rule 2 of the Second Schedule to Income Tax Act, 1961 Read with section 25 to 28 of the RDDB & FI Act, 1993. (PUBLICATION)

- M/s Matri Met Cap Industries, a partnership firm, 35/15, BP, NIT, Faridabad through Partners Shri. T.K.P. Nair and Shri R. Kutty, Defendant No.2 & 3.
- Shri T.K.P. Nair Son of Shri Krishan Pillai, R/o 669, Sector 23, Faridabad Partner of M/s Matri Met Cap Industries, 3B/15, BP, NIT, Faridabad.
- Shri R. Kutty S/o Late Shri. K. Kunju Kutty, R/o 18, MIG, Sector 23, Faridabad, Partner of M/s Maitri Met Cap Industries, 3B, 15, BP, NIT, Faridabad.
- Smt. Devi Kutty W/o Shri R. Kutty, R/o 18, MIG, Sector 23, Faridabad. Shri. Rajesh Sharma S/o Shri Kuldip Sharma, R/o House No.18, Sector
- 23, Housing Board Colony, Faridabad. In terms of the Recovery Certificate No.1078/2017 in O.A. No.549/2002
- ssued by the Hon'ble Presiding Officer, a sum of Rs.13,02,107.61p/- has become due from you.
- You are hereby called upon to deposit the above sum within fifteen days o the receipt of this Notice.

In addition to the aforesaid sum, you shall be liable to pay-

e. Interest as per the order in the Recovery Certificate.

f. All costs, charges and expenses incurred in respect of the service of this notice and other process that I may have taken for recovering the

You are also directed to appear before the undersigned on 20.02.2024 along with the affidavit disclosing your movable and immovable assets. In case you fail to appear, on the said date personally or through your authorized representative / counsel, the case will be decided as per Law.

Given under my hand and seal of this Tribunal on 30.09.2023 at Chandigarh.

SEAL OF

Particulars

COURT

SI.

(Recovery Officer-II) DRT - II, Chandigarh

KG PETROCHEM LIMITED CIN: L24117RJ1980PLC001999

Regd. Office: C-171, Road No. 9J, VKI Area, Jaipur-302013, Rajasthan

E-mail: jproffice21@bhavik.biz; Website: www.kgpetro.in, Phone: 141-2331231 Extract of Un-Audited Standalone Financial Results for Quarter and Nine months Ended December 31, 2023

Nine Months Ended Year Ended **Particulars** Quarter Ended 31.12.2023 30.09.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.03.2023 'Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) otal Income from Operations 7,020.78 7,114.21 7,181.73 22,555.66 22,274.02 30,335.69 Net Profit/(Loss) for the period 284.21 114,38 1,606.77 1,119.01 before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items) Net Profit/ (Loss) for the period, 114.38 1,606.77 1,119.01 284.21 (85.82) 705.71 before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items) 1,111.56 779.41 Net Profit/(Loss) for the period 224.61 (119.08)549.45 6.26 (after Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items) Total Comprehensive Income 224.61 (119.08)549.45 6.26 1,111.56 795.69 for the period Equity Share Capital 581.53 581.53 581.53 581.53 581.53 581.53 Reserves (excluding 12,314.89 Revaluation Reserve) 21.29 14.93 Earnings Per Share 4.30 (2.28)10.52 0.12 (Face Value Rs. 10/- per share) Basic & Diluted)

Notes: 1. The Standalone Financials Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the company at their respective meeting held on February 12, 2024. 2. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Quarterly Financial Results for the quarter and nine nonths ended 31.12.2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the website of the stock exchange i.e. www.bseindia.com on the Company website i.e. www.kgpetro.in. For and on behalf of Board of Directors

Place: Jaipur Date: 12/02/2024

Gauri Shanker Kandoi Chairman Cum Wholetime Director DIN: 00120330

KG Petrochem Ltd

(Rs. In Lakhs) Except Earning Per Share

CAN FIN HOMES LTD. Can Fin Homes Ltd

SCO-3, 1st Floor, Sector-14, Sonepat-131001 Ph: 0130-2235101 M. 7625079179 Email: sonepat@canfinhomes.com CIN NO. L85110KA1987PLC008699 DEMAND NOTICE

Under Section 13 (2) of "The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (No. 54 of 2002)"

- 1. MR. SUMIT MALIK (Co-borrower) S/O Late DALBIR SINGH (Borrower) R/O H.NO 1449/31, GALI NO-2, CHOTU RAM CHOWK, PRAGATI NAGAR, SONEPAT, HARYANA 131001
- 2. MR. AMIT (Co-borrower) S/O Late DALBIR SINGH (Borrower) R/O H.NO 1449/31 GALI NO 2, CHOTU RAM CHOWK, PRAGATI NAGAR, SONEPAT, **HARYANA 131001**
- and all other legal heirs. No. 1 & 2 amongst you have availed a housing loan from our branch against the security of mortgage of the following asset belonging to Late Dalbir Singh. An amount of Rs. 26.87.054/- (Rupees Twenty Six lakh Eighty Seven Thousand Fifty Four Only) is
- due from you, to Can Fin Homes Ltd. as on 12.02.2024 together with future interest at the contracted rate.

DETAILS OF THE MORTGAGED ASSET A House having an extent area of 128 sq. yds of property situated at. KHEWAT NO 574

KHASRA NO 816, MOJA SONEPAT PATTI JATTAN PARGATI NAGAR SONEPAT HARYANA-131001. The boundaries of the property are as under:-South: Gali / Rasta

East: Land Of Vendor. West: Land Of Vendor. North: Gali/Rasta

Registered demand notice was sent to Nos. 1 & 2 amongst you under Section 13(2) of the

SARFAESI Act, 2002, but the same was returned unserved. The undersigned has therefore, caused these Notices to be pasted on the premises of the last known addresses of the said Borrower/s as per the said Act. Hence this paper publication. As you have failed to adhere to the terms of the sanction, the account is classified as a Non Performing Asset on NPA 31.05.2018 as per the NHB Guidelines. You are hereby called upon to pay above said amount with contracted rate of interest thereon from 12.02.2024 DEMAND NOTICE within 60 days from the date of this notice, failing which the undersigned will be constrained to Initiate action under SARFAESI Act to enforce the aforesaid security. Further, the attention of borrowers / guarantors is invited to the provisions of Sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available to them to

Nine Months Ended

Date: 13.02.2024 **Place: Sonepat**

redeem the secured assets

Authorised Officer Can Fin Homes Ltd.

Kalyani Commercials Limited

Registered office: BG-223, Sanjay Gandhi Transport Nagar, GT Karnal Road, New Delhi-110042 Email: kalyanicommercialslimited@gmail.com; Website: www.kalyani.gvpltrucks.com; Contact No: 011-43063223, 011-47060223;

CIN:L65923DL1985PLC021453

Quarter Ended

Extract of Standalone Un-Audited Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended 31st December, 2023

(Rs. In Lakhs) Year ended

No		31/12/2023	30/09/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022	31/03/2023
		(Un-audited)	(Un-audited)	(Un-audited)	(Un-audited)	(Un-audited)	(Audited)
1	Total Income from operations	7,815.43	7,638.91	8,531.08	21647.35	21,503.18	33223.8
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	77.39	70.72	166.89	283.20	326.81	441.22
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	77.39	70.72	166.89	283.20	326.81	441.22
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	56.70	48.61	124.99	204.44	243.05	315.28
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	56.70	48.61	124.99	204.44	243.05	316.63
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7	Other Equity	-					1,433.33
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations):						
	Basic:	5.67	4.86	12.50	20.44	24.31	31.53
	Diluted:	5.67	4.86	12.50	20.44	24.31	31.53

NOTES:

- These financial results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued there under
- The Above result were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their meeting held on 13th february, 2024. The Statutory Auditor of the Company have provided Limited Review Report for the same.
- Figures of previous periods were re-grouped/re-classified wherever necessary to confirm to the periods of current periods.
- Indian Accounting Standards are applicable on the Company.
- The Company has reported Segment wise reporting as per Accounting Standard (AS-17). The Company has reported the following Business Segments: Limited

Other-

Date: 13/02/2024

Place: New Delhi

On Behalf of the Board For Kalyani Commercials Limited Sourabh Agarwal (Whole time director and CFO) DIN: 02168346

(Amount in ₹ Lakhs, Except EPS)

Nine Month Nine Month Financial Year

CAREER POINT LIMITED

Registered Office: Village Tangori, Banur, Mohali, Punjab-140601-India | Corporate Office: CP Tower-1, Road No.1, IPIA, Kota-324005 (Raj.) CIN: L80100PB2000PLC054497 | Ph: 080-47250011 | website: www.cpil.in | E-mail: investors@cpil.in

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTH ENDED ON 31ST DECEMBER, 2023

Particulars	(31/12/2023)	(30/09/2023)	(31/12/2022)	ended (31/12/2023)	ended (31/12/2022)	ended (31/03/2023)
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Total Income from Operations (net)	2650.35	2044.16	2231.54	7593.59	6054.04	8536.69
Net Profit from Ordinary Activities after tax before Minority Interest	2064.79	1324.26	1440.07	5515.11	3750.73	1506.12
Net Profit for the period after tax and Minority Interest	1507.04	1151.85	1090.67	4283.97	2648.22	1219.17
Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)	1819.29	1819.29	1819.29	1819.29	1819.29	1819.29
Reserves excluding Revaluation Reserve (NIL) as per balance	-	-	-		-	-
sheet of previous year						
Earnings Per Share (EPS)						
a) Basic & Diluted EPS before Extraordinary items	8.27	6.34	5.94	23.54	15.56	6.57
b) Basic & Diluted EPS after Extraordinary items	8.27	6.34	5.94	23.54	15.56	6.57

Particulars	Quareter ended (31/12/2023)			Nine Month ended (31/12/2023)	Nine Month ended (31/12/2022)	Financial Year ended (31/03/2023)
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Total Income from Operations (net)	1648.94	1569.85	1113.04	4902.76	3911.46	5189.89
Net Profit from Ordinary Activities after tax before Minority Interest	1005.61	1292.39	601.28	3284.98	2284.31	2961.60
Net Profit for the period after tax and Minority Interest	705.94	1136.86	411.68	2547.81	1665.43	2219.35
Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)	1819.29	1819.29	1819.29	1819.29	1819.29	1819.29
Reserves excluding Revaluation Reserve (NIL) as per balance	-	-	-		-	-
sheet of previous year						
Earnings Per Share (EPS)	0		8			
a) Basic & Diluted EPS before Extraordinary items	3.88	6.24	2.26	14.00	9.15	12.20
b) Basic & Diluted EPS after Extraordinary items	3.88	6.24	2.26	14.00	9.15	12.20

- 1.The financial results for the Quarter and nine month ended 31st December, 2023 have been limited reviewed.
- 2. The above results, duly reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on 13th February, 2024.
- 3. The above is an extract of the detailed format of both Consolidated and Standalone Financial Results for the Quarter and Nine month ended on 31st December, 2023 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Company's website i.e. www.cpil.in and Stock Exchange websites i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR CAREER POINT LIMITED PRAMOD MAHESHWARI

Date: 14th February, 2024

Place: Kota (Rajasthan)

New Delhi

Chairman, Managing Director and CEO (DIN-00185711)

बिज्नेस रेमेडीज

भाव-बाजार । कमोडिटी । विविध

एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट ने छठे पशु विकास दिवस पर 1 लाख से अधिक मवेशियों का इलाज किया गया, डेयरी फार्मिंग में महिलाओं की भूमिका को सम्मनित किया गया

14 राज्यों में 460 से अधिक स्थानों पर पशु शिविर आयोजित किए गए और 1 लाख से अधिक मवेशियों का इलाज किया

बिज़नेस रेमेडीज/नई दिल्ली

भारत की अग्रणी एनबीएफसी में से एक एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (पूर्व में 'फ़्लर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड') ने अपना छठा पश् विकास दिवस (पीवीडी) आयोजित किया। यह देश में सबसे बड़ा एक दिवसीय पश् देखभाल शिविर के रूप में जाना जाता है। इस दौरान एक लाख से अधिक मवेशियों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 14 राज्यों में 460 से अधिक स्थानों पर एक साथ शिविर आयोजित किए गए।

भारत में, 8 करोड़ से अधिक परिवार सीधे तौर पर डेयरी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और इनमें इनमें महिलाएं 70 प्रतिशत कार्यबल का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन महिलाओं की भूमिका के सम्मान के लिए, छठा पश् विकास दिवस 'डेयरी फार्मिंग में महिलाएं% के रूप में मनाया गया। यह पहल ईएसजी ढांचे के सामाजिक पहलू को दर्शाती है, जो सामाजिक उत्थान को आगे बढाने में लैंगिक विविधता और समावेशन के महत्व पर जोर देती है। मवेशियों की देखभाल



इंडिया क्रेडिट ने 4 फरवरी से 10 फरवरी 2024 तक देश भर में लोगों के लिए 300 से अधिक स्वास्थ्य देखभाल शिविरों का भी आयोजन किया, जिससे 30,000 से अधिक लोगों को लाभ हुआ। छठे पशु विकास दिवस ने कुल मिलाकर 1,25,000 से अधिक लोगों के जीवन को प्रभावित किया।

कंपनी का विविध कार्यबल 600 कस्बों और 65,000 से अधिक गांवों में अखिल भारतीय ग्राहक आधार को पूरा करते हैं। कार्यबल का फोकस ऋण के माध्यम से सपनों को वित्तपोषित करके और ग्रामीण भारत को उन स्थानीय समुदायों में बेहतर आजीविका के लिए कौशल प्रदान करके एक समग्र समावेशी इको सिस्टम सुनिश्चित करने पर है, जहां वे काम करते हैं। पशु विकास दिवस में देश भर के 4,000 से अधिक कर्मचारियों ने सक्रिय तौर पर भागीदारी निभाई। इसके लिए कर्मचारी स्वेच्छा से आगे आए।

कंपनी की सामाजिक पहल के बारे में एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट के चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर शांतनु मित्रा ने कहा, कि हमारे ग्रामीण ग्राहक आधार में 90 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं। हमारे बहुत से ग्राहक पशु खरीदने के लिए ऋण लेते हैं, जो उनके लिए आय का एक बड़ा स्रोत है। हमारे

सामुदायिक विकास कार्यऋम परिवर्तन को संभव बनाने के लिए प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं और ग्रामीण आजीविका के उत्थान, जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने और आय स्रोतों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पशुधन कल्याण के अलावा, हम कौशल विकास और वित्तीय साक्षरता को भी सक्रिय रूप से बढ़ावा देते हैं, जिन समुदायों की हम सेवा करते हैं उनके समग्र कल्याण में योगदान करते हैं। एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट में, हम नवीन और टिकाऊ सामाजिक-आर्थिक पहलों के माध्यम से वंचित समुदायों में

समावेशी विकास को बढ़ावा

देकर अपने ग्राहकों के साथ मजबूत रिश्ता स्थापित करने के लिए समर्पित हैं। पश् विकास दिवस पर

टिप्पणी करते हुए, एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट के ऑपरेटिंग ऑफिसर स्वामीनाथन सुब्रमण्यम ने कहा, किएसएमएफजी इंडिया क्रेडिट में, हम ग्रामीण विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और मजबूत सामाजिक पहलों को बढ़ावा देने के लिए अपने मिशन पर मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। एक अग्रणी क्रेडिट प्रदाता के रूप में, हम अपनी सामुदायिक गतिविधियों में सम्मिलित समावेशी कार्यक्रमों और एक साथ काम करने वाले विविध कार्यबल के माध्यम से ईएसजी के 'सामाजिक' पहलू को बधावा देते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, पशुविकास दिवस विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मवेशियों और उनके मालिकों की अनूठी स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह आयोजन पशु-मालिकों की आकांक्षाओं को क्षमता प्रदान करता है और पशुधन उत्पादकता को बढ़ाने और बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। हमारा ध्यान वंचितों को निरंतर समर्थन देने पर केन्द्रित है, और हम ना केवल हमारे ग्राहकों की, बल्कि बड़े पैमाने पर समुदाय के सशक्तिकरण और उत्थान की सुविधा प्रदान करने पर फोकस कर रहे हैं।

पशु विकास दिवस डेयरी फार्मिंग क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने और सतत प्रयासो को बढ़ावा देने के लिए कंपनी के अटूट समर्पण का उदाहरण है। इस वर्ष, कंपनी ने देश भर में आयोजित सबसे बड़े एक दिवसीय पशु देखभाल शिविरों के लिए वर्ल्ड रिकॉर्डस यनियन सर्टिफिकेट भी हासिल किया। पिछले कुछ संस्करणों में पीवीडी को भारत भर में आयोजित सबसे बड़े एकल दिवसीय मवेशी देखभाल शिविर के लिए 2015 लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया था। 2018 में बेस्ट ऑफ इंडिया रिकॉर्ड्स द्वारा विश्व के सबसे बड़े एकल दिवसीय मवेशी देखभाल शिविर के रूप में, 2019 और 2023 में वर्ल्ड बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सबसे बड़े मवेशी देखभाल शिविर के रूप में शामिल किया

मुंबई और बेंगलुरु में कदम

कोल्टे-पाटिल ने वित्त वर्ष 2025 तक 9,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट शुरू करने का किया ऐलान

बिज्नेस रेमेडीज/पुणे

बढ़ाती पुणे की रियल एस्टेट कंपनी कोल्टे-पाटिल डेवलपर्स लिमिटेड ने पुणे, मुंबई और बेंगलुरु में अगले 14 महीनों में कुल 9,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स शुरू करने का ऐलान किया है। सोची-समझी रणनीति के तहत उठाया गया यह कदम कोल्टे-पाटिल डेवलपर्स की उस पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका लक्ष्य उच्च क्षमता वाले माइक्रो मार्केट में अपनी मौजूदगी को मजबूत करना और बाजार हिस्सेदारी बढाना है।

कोल्टे-पाटिल ने पुणे पर उल्लेखनीय फोकस के साथ प्रमुख परिचालन क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति को काफी हद तक बढाया है। अकेले पुणे में लॉन्च होने वाली आगामी परियोजनाओं

की लागत लगभग 6,400 करोड़ रुपए है। बुनियादी ढांचे में निरंतर वृद्धि और बढ़ती आर्थिक गतिविधियों से पुणे में आवासीय बाजार लगातार फल-फूल रहा है। शहरी बुनियादी ढांचे, लाइफ इंडेक्स की अच्छी गुणवत्ता, रहने की उचित लागत और विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत रोजगार के अवसरों के कारण बढ़ती प्रति व्यक्ति आय को शहर के विकास का श्रेय दिया जा सकता है। केपीडीएल की परियोजनाएं पुणे में किवळे, पिंपळे निलख, बाणेर, खराडी, हिंजवडी और एनआईबीएम रोड जैसे माइक्रो मार्केट में हैं। औद्योगिक क्षेत्रों से निकटता, बेहतरीन कनेक्टिविटी और अच्छे सोशल-इंफास्ट्रकर के कारण इन माइक्रो मार्केट ने पसंदीदा आवासीय स्थलों के रूप में तेजी से लोकप्रियता हासिल की है।

KG PETROCHEM LIMITED

दिसम्बर 31, 2023 को समाप्त तिमाही और नौ महीने के लिए अलेखापरीक्षित एकल वित्तीय परिणाम

	(रु. लाख में) प्रति शेयर आय को छोड़कर								
क्र		1	तिमाही समा	ਸ	छमाही	समाप्त	वर्ष समाप्त		
मां क	विवरण	31.12.2023 अलेखापरीक्षित		31.12.2022 अलेखापरीक्षित			31.03.2023 लेखापरीक्षित		
1	कुल परिचालन आय	7,020.78	7,114.21	7,181.73	22,555.66	22,274.02	30,335.69		
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर असाधारण और/या असामान्य वस्तुओं के पहले)	284.21	(85.82)	705.71	114.38	1,606.77	1,119.01		
ω	अवधि के लिए कर के पहले शुद्ध लाम/ (हानि) (असाधारण और/या असामान्य वस्तुओं के बाद)	284.21	(85.82)	705.71	114.38	1,606.77	1,119.01		
4	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि)(कर असाधारण और/या असामान्य वस्तुओं के बाद)	224.61	(119.08)	549.45	6.26	1,111.56	779.41		
5	अवधि के लिए कुल आय	224.61	(119.08)	549.45	6.26	1,111.56	795.69		
ŝ	समता अंश पूंजी	581.53	581.53	581.53	581.53	581.53	581.53		
7	रिजर्व (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)			-		•	12,314.89		
3	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का अंकित मूल्य) मूल एवं तरल	4.30	(2.28)	10.52	0.12	21.29	14.93		

को आयोजित उनकी संबंधित बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। 2. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक क्सचेंज में प्रस्तुत किये अलेखापरीक्षित तिमाही और नौ महीन समाप्त वित्तीय परिणामो के विस्तृत ग्रारूप का सार हैं। वित्तीय परिणामो का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट ww.bseindia.com तथा कंपनी की वेबसाइट www.kgpetro.in पर उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेश द्वारा वास्ते के जी पेट्रोकेम लिमिटेड

पारत पर जा न्यूस्तान लिनटड हस्ताक्षर / – गौरी शंकर कंदोई, अध्यक्ष सह पूर्णकालिक निदेशक DIN: 00120330 स्थान: जयपुर दिनांक: 12/02/2024 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गयी।

देश के भविष्य को सुदढ़ बनाने में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा जिंक और स्टील का सामंजस्य

बिज्नेस रेमेडीज

भारत की आर्थिक आकांक्षाओं के विशाल कैनवास में, बुनियादी ढांचे का विकास आधारशिला के रूप में उभरा है, जो देश के लिए 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। इस परिवर्तनकारी यात्रा के केंद्र में अपरिहार्य है - स्टील और जिंक - दो धातुएं जो एक अविभाज्य बंधन साझा करती हैं, जो देश का प्रगात म महत्वपूण यागदान

भारत के परिदृश्य में एक उल्लेखनीय परिवर्तन आया है, पूरे देश में विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित हो रही हैं, सड़कों, जलमार्गों, रेलवे, हवाई अड्डों और बंदरगाहों के जटिल नेटवर्क के माध्यम से पहले और अंतिम मील तक कनेक्टिविटी को बढावा मिला है। स्मार्ट शहरों का विकास एक शानदार सफलता रही है, जो कनेक्टिवटी बढ़ाने और आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

औद्योगिक अनुप्रयोगों में गैल्वेनाइज्ड स्टील की मांग बडी जो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के तेजी से विस्तार

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली

सरकारों और नागरिकों के लिए

तकनीकी-सक्षम सेवा भागीदार

कंपनी बीएलएस इंटरनेशनल

सर्विसेज लिमिटेड ने 31

दिसंबर, 2023 को समाप्त

तिमाही और नौ महीने की

अवधि के लिए अपने

अलेखापरीक्षित समेकित वित्तीय

परिणामों की घोषणा कर दी है।

तुर्की स्थित वीज़ा-प्रोसेस कंपनी

iDATA में 100 प्रतिशत

बीएलएस इंटरनेशनल ने

भरोसेमंद अंतर्राष्ट्रीय

और पूर्व-इंजीनियर्ड इमारतों में वृद्धि के कारण बडी है। हालाँकि, कोरोजन का लगातार वैश्विक मुद्दा इन विकासों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करता है, बुनियादी ढांचे और परिवहन प्रणालियों पर कहर डाला है और बाद में समग्र अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। प्रगति की इस कहानी में विशेष रूप से जिंक को शामिल करें। जंग, स्टील का अभिशाप, सब्सट्रेट को खराब कर देता है, जिससे जंग लग जाती है और अंततः सामग्री नष्ट हो जाती है। इस चुनाता का स्वाकार करत हुए, हॉट-डिप गैल्वनाइजिंग की वैश्विक प्रवृत्ति को प्रमुखता मिली है। इसमें स्टील पर जिंक की परत चढाकर एक मिश्रधात् बनाई जाती है जो न केवल उत्पाद की सुरक्षा करती है बल्कि उसके उपयोगी जीवन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है।

वैश्विक गैल्वनाइज्ड स्टील बाजार पर्याप्त वृद्धि के लिए तैयार है, जिसका 2025 तक 57.74 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है, जो लगभग 3 प्रतिशत की सीएजीआर पर प्रगति कर रहा है। इस प्रवृत्ति में सबसे आगे है गैल्वनाइजिंग, जो कभी केवल संक्षारण संरक्षण का एक स्रोत था, अब कई लाभों के लिए

पहचाना जाता है - दीर्घायु, स्थिरता, कम प्रारंभिक लागत, उपलब्धता, स्थायित्व और यहां तक कि सौंदर्यशास्त्र भी। गैल्वनाइजिंग सिर्फ जंग के खिलाफ एक ढाल नहीं है, यह दूरगामी समस्या दीर्घकालिक समाधान है।

प्रारंभिक निर्माण चरणों के दौरान कार्यान्त्रित जस्ता-संरक्षित स्टील, बुनियादी ढांचे के लिए एक मजबूत रक्षा तंत्र बन जाता है। जिंक, एक धातु के रूप में, न केवल स्थिर है बल्कि 100 प्रतिशत पुनर्चऋण योग्य और रखरखाव-मुक्त भा ह। इसका सस्टेनेबिलिटी अन्य धातुओं की तुलना में, खनन से लेकर उत्पादन तक, आपूर्ति श्रृंखला में इसकी कम ऊर्जा खपत से रेखांकित होती है। वास्तव में, दुनिया भर में 80 प्रतिशत जस्ता वर्तमान में रीसाइक्लिंग के लिए उपयोग किया जाता है, जो पर्यावरणीय जिम्मेदारी के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इसके अलावा, जिंक में एक अद्वितीय स्व-उपचार गुण होता है, जो इसे निर्माण में छत और क्लैडिंग के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है। यह न केवल बुनियादी ढांचे के जीवनकाल को दोगुना करता है बल्कि टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं की ओर

बीएलएस निरंतर विकास पथ पर अग्रसर बेहतर व्यावसायिक मिश्रण के कारण लाभप्रदता

में भारी वृद्धि, Q3FY24 EBITDA 88.6 करोड़ रूपए, 33.6 प्रतिशत की बढ़त

वैश्विक बदलाव के साथ भी सरिखित होता है। जैसे-जैसे कहानी सामने आती है, यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में निर्माण का भविष्य आंतरिक रूप से जस्ता के बहुमुखी अनुप्रयोगों से जुड़ा हुआ है। स्टील और जिंक, एक सामान्य उद्देश्य से जुड़े हुए, भारत की आर्थिक उन्नति के अग्रदूत के रूप में खड़े हैं, जो न केवल प्रगति का वादा करते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सस्टेनेबल और स्थायी

विरासत का भी वादा करते हैं। भारत की आकाक्षाआ क विशाल कनवास में, बुनियादी ढांचे का विकास आधारशिला के रूप में उभरा है, जो देश के लिए 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। इस परिवर्तनकारी यात्रा के केंद्र में अपरिहार्य है - स्टील और जिंक - दो धातुएं जो एक अविभाज्य बंधन साझा करती हैं, जो देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। भारत के परिदृश्य में एक उल्लेखनीय परिवर्तन आया है, पूरे देश में विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित हो रही हैं, स?कों, जलमार्गों, रेलवे, हवाई अड्डों और बंदरगाहों के जटिल नेटवर्क के माध्यम से पहले और अंतिम

मील तक कनेक्टिविटी को ब?ावा मिला है। स्मार्ट शहरों का विकास एक शानदार सफलता रही है, जो कनेक्टिविटी बढ़ाने और आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का

इसके साथ ही घरेलू आय को

औद्योगिक अनुप्रयोगों में गैल्वेनाइज्ड स्टील की मांग बड़ी जो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के तेजी से विस्तार और पूर्व-इंजीनियर्ड इमारतों में वृद्धि के कारण बढ़ी है। हालाँकि, कोरोजन का लगातार वैश्विक मुद्दा इन विकासों के लिए एक महत्वपूण खतरा पदा करता ह बुनियादी ढांचे और परिवहन प्रणालियों पर कहर डाला है और बाद में समग्र अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। प्रगति की इस कहानी में विशेष रूप से जिंक को शामिल करें। जंग, स्टील का अभिशाप, सब्सट्रेट को खराब कर देता है, जिससे जंग लग जाती है और अंततः सामग्री नष्ट हो जाती है। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए, हॉट-डिप गैल्वनाइजिंग की वैश्विक प्रवृत्ति को प्रमुखता मिली है। इसमें स्टील पर जिंक की परत चढ़ाकर एक मिश्रधातु बनाई जाती है जो न केवल उत्पाद की सुरक्षा करती है बल्कि उसके उपयोगी जीवन को महत्वपूर्ण

Tirupati

सोने-चांदी में तेजी

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली सोने और चांदी के फ्यूचर्स रेट में

तेजी देखने को मिली। सटोरियों

द्वारा ताजा सौदों की लिवाली

करने से सोने की कीमत 152

रुपये की तेजी के साथ 62,230

TIRUPATI FINCORP LIMITED Fincorp Limited

Regd. Office: Flat no. G2/G17, Raghuraj Enclave, Krishna Marg C-Scheme, Jaipur, Rajasthan, India, 302001

Email: tirupatifincorp31@gmail.com | Web: http://www.tirupatifincorp.in/.

Quarter Ended

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2023

Nine Month ended | December | September | December | December | 31, 2023 | 30, 2023 | 31, 2022 | 31, 2023 | 31, 2022 | 38.73 (24.30)(69.05)

Unaudited | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Net Profit/ (Loss) for the period before Tax 11.26 (23.90)(16.43)Net Profit/(Loss) for the period after Tax 22.90 12.18 (27.30)(12.19)(15.29)(48.42) Equity Share capital 494.42 494.42 494.42 494.42 494.42 494.42 Earnings per Share capital (FV 10/- each) (0.55)(0.98)0.25 (0.55)(0.25)0.46 (0.31)Note: 1. The above is an extract of the detailed format of the Un-audited financial results for the quarter ended December 31, 2024

which is duly approved by Board of the Directors of the company at the its meeting held on February 13, 2024 and its was further filed with BSE, under regulation no 33 of the SEBI (LODR) Regulation, 2015. The full format is also available on the website of the company i.e. https://tirupatifincorp.in and BSE's Website i.e. https://www.bseindia.com

Date: February 13, 2024

Arvind Gala DIN: 02392119

ARIGATO UNIVERSE LIMITED

(FORMERLY KNOWN AS SABOO BROTHERS LIMITED)

Corporate Office: 802, Impressa Rise, Ambazari Road, Opposite LAD College, Shivaji Nagar, Nagpur – 440010, Maharashtra, India; Contact Number: +91-7841984000/ +0291-2654120; Email Address: saboo.brothers@gmail.com; Website: www.saboobrothers.com; Email Address: saboo.brothers@gmail.com Open Offer for acquisition of up to 15,85,012 Equity Shares, representing 26.00% of the Voting Share Capital of Arigato Universe Limited

(Formerly Known As Saboo Brothers Limited) ('SABOOBR' or 'Target Company'), at an offer price of Rs.18.50/- ('Offer Price') payable in cash by the Mr. Rajan Kantilal Shah ('Acquirer 1'), Mrs. Chhaya R Shah ('Acquirer 2'), Mr. Sanket Shah ('Acquirer 3'), Mr. Shagun Rajan Shah (Acquirer 4), Ws. J P Enterprises ('Acquirer 5), Ws. Harshali Multitrade Private Limited ('Acquirer 6'), Ms. Hazun Un Package Private Limited ('Acquirer 7'), and Ms. Nidus Software Solution Private Limited ('Acquirer 8') (hereinafter collectively referred to as 'Acquirers') in accordance with the provisions of Regulations 3 (1) and 4 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Share and Takeovers) Regulations, 2011, and subsequent amendments thereto. This is a corrigendum to the Post-Offer Public Announcement is being issued by Swaraj Shares and Securities Private Limited, the Manager to the Offer

'Manager'), on behalf of the Acquirers, in connection with the Offer made by the Acquirers to the Public Shareholders of the Target Company, pursuant o and in compliance with the provisions of Regulation 18 (12) and other applicable provisions under the SEBI (SAST) Regulations ('Corrigendum to he Post-Offer Public Announcement'). This Corrigendum to the Post-Offer Public Announcement should be read in continuation of, and in conjunction with the Post-Offer Public Announcement approved on Monday, February 11, 2024, which has been published in the Newspapers on Tuesday, February 13, 2024 ('Corrigendum to the Post-Offer Public Announcement').

In this regards, the Public Shareholders are requested to note the following change in Paragraph 7.10. of Post-Offer Public Announcement and the said Paragraph shall be read as under:

7.10. Pre-Offer and Post-Offer shareholding of the Public Shareholders

	(care are required and anothing reconstant)						
	Particulars	Pre-Offer	Post-Offer	Pre-Offer	Post-Offer		
a)	Number of Equity Shares	30,68,612	14,83,600	30,68,612	21,18,812		
o)	% of fully diluted Equity Share capital	50.33%	24.34%	50.33%	34.75%		

obligations specified under SEBI (SAST) Regulations A copy of this Corrigendum to the Post-Offer Public Announcement will be accessible on the websites of Securities and Exchange Board of India

at www.sebi.gov.in, BSE at www.bseindia.com and the registered office of the Target Company

The capitalized terms used in this Corrigendum to the Post-Offer Public Announcement shall have the meaning assigned to them in the Letter of

Email Address: compliance@swarajshares.com

SWARA!

Corporate Identification Number: U51101WB2000PTC092621

Principal Place of Business: Unit No 304, A Wing, 215 Atrium, Near Courtyard Marriot, Andheri East, Mumbai- 400093, Maharashtra, India Contact Person: Pankita Patel/ Tanmoy Banerjee Contact Number: +91-22-69649999

Investor grievance Email Address: investor.relations@swarajshares.com SEBI Registration Number: INM00012980 Validity: Permanent

For and on behalf of all Acquirer Mr. Rajan Kantilal Shah

हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर की घोषणा की है। बीएलएस ई-सर्विसेज, बीएलएस इंटरनेशनल की प्रमुख सहायक कंपनियों में से एक कंपनी है। यह एक

सफल आईपीओ के माध्यम से एनएसई और बीएसई सूचीबद्ध हुई। इसने विभिन्न आर्गेनिक और इनऑर्गेनिक (विलय व अधिग्रहण) विकास अवसरों के लिए 310 करोड़

ंपनी के प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए, बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड के संयुक्त

प्रबंध निदेशक, शिखर अग्रवाल ने कहा कि हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कंपनी ने उम्मीदों के अनुरूप प्रदर्शन किया है और तीसरी तिमाही में अपनी विकास की तेज रफ्तार जारी रखी है। हमारे EBIDTA और PAT में साल-दर-साल क्रमशः 33.6 प्रतिशत और 90.2 प्रतिशत की जबर्दस्त

व्यावसायिक मिश्रण के कारण EBITDA मार्जिन बढ़े हैं। जो इस तिमाही में भी 20 प्रतिशत से ऊपर बना रहा। जैसे-जैसे प्रमुख बाज़ार खुल रहे हैं, हमें उम्मीद है कि वीजा आवेदनों की संख्या में और वृद्धि होगी।

प्रगति देखी गई। अनुकूल

व्यावसायिक घटनाओं के लिहाज से यह तिमाही काफी रोमांचक रही है। हमने हाल ही में तुर्की स्थित वीज़ा आउटसोर्सिंग सेवा प्रदाता कंपनी iData में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी के जरिए अधिग्रहण के लिए निश्चित समझौतों पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। इससे हमारा वीजा व्यवसाय और मजबूत होगा। साथ ही हमारे पोर्टफोलियो में ज्यादा भौगोलिक क्षेत्र जुड़

आईपीओ सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसमें हमारे ई-गवर्नेंस, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट और ई-असिस्टेड सेवा व्यवसाय शामिल होंगे। इस व्यवसाय प्राप्त आय का उपयोग इस व्यवसाय का विस्तार करने में किया जाएगा। इस बारे में हमारा मानना है कि इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। कुल मिलाकर, हमारा लक्ष्य अपनी पहुंच को व्यापक बनाने पर फोकस करना है। इसके लिए आर्गेनिक और इनआर्गेनिक विकास पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। साथ ही सभी हितधारकों को एक स्थायी मूल्य (सस्टेनेबल वैल्यू) उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे।

Date: Tuesday, February 13, 2024

जाएंगे। मुझे यह कहते हुए भी

रूप से बढाती है।

गर्व हो रहा है कि हमने अपनी

सहायक कंपनी बीएलएस ई-